



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 ज्येष्ठ 1939 (श10)  
(सं० पटना 462) पटना, शुक्रवार, 26 मई 2017

---

सं० वि०2-51/99-382/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

23 मई 2017

**विषय :-** बिहार सामान्य भविष्य निधि/ अंशदायी भविष्य निधि के अभिदाताओं के खाता में संचित राशि पर केन्द्र सरकार के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम तिमाही दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से 30 जून, 2017 तक की अवधि के लिए ब्याज दर 7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-360 दिनांक 16.05.2017 द्वारा सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतिम तिमाही दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि हेतु केन्द्र सरकार के अनुरूप ब्याज दर 8.0% (आठ प्रतिशत) लागू किया गया है ।

**2.** भारत सरकार वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के संकल्प संख्या-5(1)-बी(पी.डी)/2017 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2017 तक के लिए ब्याज की दर 7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) निर्धारित की गयी है ।

3. अतः सरकार के निर्णयानुसार अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि खाता में संचित राशि पर वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दिनांक 01.04.2017 से 30.06.2017 तक की अवधि के लिए ब्याज की दर 7.9% (सात दशमलव नौ प्रतिशत) लागू होगा ।

4. पटना उच्च न्यायालय/ बिहार विधान परिषद्/ बिहार विधान सभा के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के अंशदान की राशि पर ब्याज के उक्त दर के निर्धारण के सम्बन्ध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना/ माननीय सभापति, बिहार विधान परिषद्/ माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित कार्यालय/सचिवालय द्वारा आदेश निर्गत किया जायेगा ।

**आदेश :** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 462-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>